

**कार्यपालक अभियंता का कार्यालय**  
**ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, सिकहरना, ढाका।**

पत्रांक - 1764(अड्डा)/सिकहरना, ढाका, दिनांक-21/12-2022

प्रेषक :-

कार्यपालक अभियंता,  
ग्रामीण कार्य विभाग,  
कार्य प्रमंडल, सिकहरना, ढाका।

सेवा में,



अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी,  
ग्रामीण कार्य विभाग,  
विश्वसरैया भवन, पाच्चा तल्ला, बिहार, पटना।

विषय :- M/R (3054) New Maintenance Police 2018 योजना हेतु आवंटन अधियाचना के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि इस प्रमंडलान्तर्गत M/R (3054) New Maintenance Police 2018 योजना के अधीन कराये गये कार्य के विरुद्ध भुगतान हेतु आवंटन अधियाचना विहित-प्रपत्र में संलग्न कर समर्पित किया जाता है।  
अनुलग्नक :- यथोक्त।

विश्वासभाजन

  
कार्यपालक अभियंता,  
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल,  
सिकहरना, ढाका।  
  
21/12/22

Name of the Division :- Rural Works Department, Works Div. Dhaka

# Rural Works Department Requisition Formate for Scheme Head-MR(3054) under Bihar Rural New Maintenance Policy-2018 (Initial Rectification and Surface Renewal)

Sl.	Package No.	Name of Road	Project id as per MIS	A/A Letter No. & Date	Administrative Approval		Agreement Amount (in Lakh)		Agreement No. & Date	Date of Completion as per Agreement	Actual Date of Completion	Value of RI (in mm/km)	Thickness of Bitumen layer (in mm)	Value of Bitumen Content in Percentage	Previous Total Allocated Amount (in Lakh)	Up-to date expenditure as per MIS	Requisition against work done (in Lakh)	Remarks
					Length (in km)	Amount (in Lakh)	Initial Rectification with surface Renewal (in Lakh)	5 Year Routine Maintenance (in Lakh)										
1	RM/EA/SIK/22/0006	Pachpakri Garhenwa to parsu Saw tola	31708612008	2090/06.05.2022	1.820	127.71000	105.99355	22.26765	19 MBD-09.12.2022	08.09.2023		3061.526	25	5	0.00	0.00	105.98102	
Total :-																		

प्रमाणित किया जाता है कि पथ में कराये गये कार्य के सभी अवयववार 100 प्रतिशत कार्य का दर्ज मापी का सत्यापन संबंधित कनीय अभियंता 50 प्रतिशत मापी का सत्यापन संबंधित सहायक अभियंता एवं 10 प्रतिशत मापी का सत्यापन अखोहस्ताक्षरी यथा कार्यपालक अभियंता द्वारा किया जा चुका है। कराया गया कार्य मानक एवं विशिष्टियों के अनुरूप है।

Divisional Accounts Officer  
Rural Works Div, Dhaka

Executive Engineer  
RWD (W) Div. Dhaka



**FORM GFR 19-A**

(See Government of India's Decision (1) below Rule-150)

**Form of Utilization Certificate Upto the Month of upto.....****MR-3054 (New Maintenance Policy)****PIU :- EE RWD (W) DIVISION DHAKA**

Sl.	Name of the Scheme	Sanction No. & Date with Amount (Rs. In Lakh)	Amount Received (Rs. In Lakh)	Particulars
1	Construction of Rural Roads Under MR-3054 (New maintenance Policy)			Certified that out of Rs. .... Lacs received the year 2022-23 in favor of Executive Engineer, R.W.D. (W), Division Dhaka a sum of Rs. .... lacks has been utilized for the purpose of MR-3054 (New Maintenance Policy) Schemes as given in the margin for which it was sanctioned of Rs. .... Remaining unutilized at the end of the period under.
Total :-				

Certified that I have satisfied my self that the condition on which the grants-in-aid was sanctioned have been duly fulfilled are being fulfilled and that I have exercised the following checks to see that the money was actually utilized for the purpose for which it was sanctioned.

  
**Divisional Account Officer**


**R.W.D. (W) Div., Dhaka**

Kind of Checks Exercised :-

- Works have been supervised by Executive Engineer/Superintending Engineer.
- Periodical inspection has been conduct by Executive Engineer/Superintending Engineer.
- Construction material have been tested.
- Measurement have been recorded in the MBs and test check conducted by the Assistant.
- All other codal Formalities have been observed.

Physical Progress achieved :-

- Construction of Road Works.
- Construction of CD Works.

  
**Executive Engineer**

**R.W.D.(W) Div., Dhaka**

NAME OF CONTRACTOR:HIND CONSTRUCTION (PRO-TUFAIL AHMAD)

NAME OF ROAD:-PACHPAKRI GURHANWA TO PARSA SAW TOLA

Date	Time	Section No.	Length in km	Bumps in mm	Speed Rate	OR mm/km	IRI mm/km	Category ROAD	Latitude	Longitude	Event	
20/12/22	14:28:0	9	0.1	410	10.1	4100	3594 G		26.679146	85.206726	Normal	$Y = 0 * X^2 + 0.816 * X + 249$
20/12/22	14:29:0	9	0.1	330	0	3300	2941 G		26.679183	85.207553	Normal	$X = 3409$
20/12/22	14:29:43	9	0.1	370	10.1	3700	3268 G		26.679049	85.208329	Normal	$Y = 3030$
20/12/22	14:30:19	9	0.1	350	20.2	3500	3104 G		26.678934	85.209505	Normal	(R) RURAL ROAD
20/12/22	14:31:0	9	0.1	370	20.2	3700	3268 G		26.67918	85.210518	Normal	Good
20/12/22	14:40:26	9	0.1	320	20.2	3200	2860 G		26.679248	85.211398	Normal	<4000
20/12/22	14:41:1	9	0.1	440	20.2	4400	3839 G		26.679443	85.212314	Normal	Average
20/12/22	14:42:0	9	0.1	430	10.1	4300	3757 G		26.679607	85.213456	Normal	Poor
20/12/22	14:43:0	9	0.1	370	20.2	3700	3268 G		26.679602	85.214239	Normal	
20/12/22	14:43:0	9	0.1	380	20.2	3800	3349 G		26.679782	85.215335	Normal	
20/12/22	14:43:22	9	0.1	330	10.1	3300	2941 G		26.679943	85.216256	Normal	
20/12/22	14:44:0	9	0.1	390	20.2	3900	3431 G		26.680061	85.217176	Normal	
20/12/22	14:44:0	9	0.1	420	10.1	4200	3676 G		26.680372	85.217999	Normal	
20/12/22	14:44:32	9	0.1	290	10.1	2900	2615 G		26.680725	85.218632	Normal	
20/12/22	14:45:8	9	0.1	370	10.1	3700	3268 G		26.68146	85.219245	Normal	
20/12/22	14:45:43	9	0.1	240	10.1	2400	2207 G		26.681969	85.220089	Normal	
20/12/22	16:16:4	9	0.1	300	10.1	3000	2696 G		26.682582	85.220625	Normal	
20/12/22	16:16:4	9	0.1	300	10.1	3000	2696 G		26.683252	85.22155	Normal	
20/12/22	16:16:40	9	0.02	140	40.4	1400	1391 G		26.683513	85.221863	Normal	
Total Length			1.820	Total IRI		58169						
			Avg. IRI		3061.526							

Subtenetary  
20/12/22  
JE

(Nay)  
20/12/22  
BG

Submitted  
20.12.22  
EC




**Name of Customer:**   
**Name of Work/Road:**   
**Lab Job number:**   
**Date:**   
**Section No.**

**Test Date:**   
**Machine No.:**   
**Start S No.:**   
**Start E No.:**   
**Weather:**   
**Start Location:**   
**End Location:**   
**Road Name:**   
**Road Type:**   
**Side:**   
**Interval:**   
**U/V Range:**  To   
**Dist Range:**  To   
**Equation:**

Print Generate Report and Graph

Review Graph

Map View



Subendrokr  
20.12.22  
J.E

(Nay)  
20/12/22  
AB

Handwritten signature  
20.12.22  
J.E